



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 आश्विन 1936 (श0)
(सं0 पटना 874) पटना, मंगलवार, 21 अक्टूबर 2014

सं0 3ए-11-वे0नि0-05/2014—9596

वित्त विभाग

संकल्प

20 अक्टूबर 2014

विषय:—विधि विभाग के अंतर्गत बिहार विधायी कार्य सेवा के अधीन सृजित विभिन्न राजपत्रित पदों के वेतनमान की स्वीकृति के संबंध में ।

राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का गठन किया गया है । इन नीति की कंडिका 14 में विधायी प्रभाग को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है ।

2. उक्त के अनुपालन के क्रम में बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 का गठन अधिसूचना सं0 2979/जे0, दिनांक 19/05/2014 द्वारा किया गया है । सेवाशर्त नियमावली में विधायी कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यालयीन व्यवस्था के तहत विधायी सेवा संवर्ग के लिए निम्नलिखित पद सोपान प्रीमियर सेवा के रूप में विहित किया गया है—

- (i) निदेशक-सह-विधान काउन्सेल
- (ii) अपर निदेशक (विधान)-सह-अपर विधान काउन्सेल
- (iii) अपर निदेशक (अनुवाद)-सह-अपर विधान काउन्सेल
- (iv) उप निदेशक (विधान)-सह-उप विधान काउन्सेल
- (v) उप निदेशक (अनुवाद)-सह-उप विधान काउन्सेल
- (vi) सहायक निदेशक (विधान)-सह-सहायक विधान काउन्सेल
- (vii) सहायक निदेशक (अनुवाद)-सह-सहायक विधान काउन्सेल

3. इन पदों के लिए सुसंगत वेतनमान की स्वीकृति का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

4. सम्यक् विचारोपरांत दिनांक 19/05/2014 के प्रभाव से बिहार विधायी कार्य सेवा (प्रीमियर सेवा) के लिए निम्नलिखित पदों का वेतनमान (उनके सामने अंकित) स्वीकृत किया जाता है:-

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान
1.	निदेशक-सह-विधान काउन्सेल	पी०बी०-4+10,000/-
2.	अपर निदेशक (विधान)-सह-अपर विधान काउन्सेल	पी०बी०-4+8,700/-
3.	अपर निदेशक (अनुवाद)-सह-अपर विधान काउन्सेल	पी०बी०-4+8,700/-
4.	उप निदेशक (विधान)-सह-उप विधान काउन्सेल	पी०बी०-3+7,600/-
5.	उप निदेशक (अनुवाद)-सह-उप विधान काउन्सेल	पी०बी०-3+7,600/-
6.	सहायक निदेशक (विधान)-सह-सहायक विधान काउन्सेल	पी०बी०-3+5400/-, पी०बी०-3+6600/- (पाँच वर्षों की संतोषजनक सेवा के बाद)
7.	सहायक निदेशक (अनुवाद)-सह-सहायक विधान काउन्सेल	पी०बी०-3+5400/-, पी०बी०-3+6600/- (पाँच वर्षों की संतोषजनक सेवा के बाद)

5. इन पदों के लिए उपर्युक्त स्वीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण संकल्प सं० 630, दिनांक 21/01/2010 के आलोक में किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
प्रभात शंकर,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 874-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>